



स्कूल-अभिभावक-छात्र कॉम्पैक्ट

पाइक काउंटी प्राइमरी स्कूल

2018-2019

प्रिय माता-पिता/संरक्षक,

पाइक काउंटी प्राइमरी स्कूल, छात्र, और उनके परिवार इस कॉम्पैक्ट के प्रारूप से सहमत हैं कि किस तरह माता-पिता, स्कूल कर्मचारी और छात्र बेहतर छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए जिम्मेदारी साझा करेंगे। यह बताता है कि विद्यालय माता-पिता के साथ साझेदारी निर्मित और विकसित करने के लिए कैसे काम करेगा जो जॉर्जिया राज्य के उच्च मानकों को हासिल करेगा।

यह समझने के लिए कि मिलकर काम करना कैसे आपके बच्चे को लाभ पहुंचा सकता है, छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए हमारे जिले और स्कूल के लक्ष्यों को समझना सबसे महत्वपूर्ण है।

1. PCPS- सभी छात्र पठन और गणित में उपलब्धियां बढ़ाएंगे।
2. पाइक काउंटी स्कूल- सभी छात्र कॉलेज और करियर के लिए तैयार रचनात्मक समस्या समाधानकर्ता होंगे।

अपने बच्चे को जिला और स्कूल लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए स्कूल, आप और आपका बच्चा साथ मिलकर काम करेंगे:

पाइक काउंटी प्राइमरी स्कूल:

1. जूझ रहे छात्रों के लिए हस्तक्षेप के जवाब का उपयोग करेगा।
2. अत्यधिक योग्य शिक्षक और साक्षरता कोच नियुक्त करेगा।
3. पेशेवर अधिगम (लर्निंग) समुदाय को बनाए रखना जारी रखेगा।
4. उत्कृष्टता के GA मानक उपयोग करेगा।
5. सहायक और प्रभावी सीखने के माहौल में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम और निर्देश प्रदान करेगा जो भाग लेने वाले बच्चों को निम्न के ज़रिए राज्य के छात्र अकादमिक उपलब्धि मानकों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाएगा:
 - सुरक्षित और देखरेख वाला सीखने का माहौल प्रदान करके।
 - प्रत्येक छात्र के लिए उच्च अपेक्षाएं रख करके।
 - सीखने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करके।
 - प्रभावी कक्षा प्रबंधन कौशलों को इस्तेमाल करके।
 - बेंचमार्क/प्रगति निगरानी आकलन करके।
6. साल में दो बार अभिभावक/शिक्षक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे; प्रत्येक सेमेस्टर में एक:
 - अभिभावक और शिक्षक आवश्यकतानुसार पूरे साल के दौरान सम्मेलनों (कॉन्फ्रेंसेज) का अनुरोध कर सकते हैं।
 - पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के बारे में प्रत्येक सम्मेलन में सूचना प्रदान की जाएगी।
7. माता-पिता को अपने बच्चे की प्रगति पर लगातार रिपोर्ट प्रदान करना:
 - रिपोर्ट कार्ड हर 9 सप्ताह में घर भेजे जाएंगे।
 - ईमेल, एजेंडा, और फोन कॉल उपयोग किए जाएंगे।
 - मानक परीक्षण परिणाम: पठन (स्टार) और गणित (स्टार) के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण
8. अभिभावकों को कर्मचारियों तक उचित पहुंच प्रदान करना:
 - हमारे स्कूल काउंसलर और अन्य कर्मचारी स्कूल के पहले, उसके दौरान और बाद में अपॉइंटमेंट के आधार पर सम्मेलनों के लिए उपलब्ध होंगे।

- प्रशासनिक कर्मचारियों से फोन, ईमेल, इत्यादि के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।
- व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) बैठकें और टियर बैठकें
- ज़िला और स्कूल वेब पेज
- शिक्षक ईमेल

9. पाइक काउंटी प्राइमरी स्कूल में अभिभावकों को स्वयंसेवा और प्रतिभागिता के लिए निम्नानुसार अवसर प्रदान करना:

- चैटवरन फ्रील्ड ट्रिप्स
- विशेष कार्यक्रमों और कार्यक्रमों में प्रतिभागिता
- शैक्षिक पुस्तक मेला
- अभिभावक स्वयंसेवा कार्यक्रम
- PTO
- अभिभावक संलग्नता कार्यक्रम

माता-पिता/संरक्षक की ज़िम्मेदारियां:

हम माता-पिता के रूप में:

- उच्च अकादमिक उपलब्धि के साथ-साथ सकारात्मक व्यवहार की अपेक्षाओं को सूचित करेंगे
- अपने बच्चे को उपस्थित होने और समय का पाबंद होने; तरोताज़ा और स्कूल के लिए हर दिन तैयार रहने में मदद करेंगे
- अपने बच्चे को प्यार, सम्मान और प्रोत्साहित देंगे, और उसे सकारात्मक, अहिंसक तरीकों से संघर्षों को सुलझाने में मदद करेंगे

मैं सहमत हूँ:

- मेरे बच्चे के स्कूलवर्क की निगरानी करने और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए
- स्कूल की नीतियों, प्रक्रियाओं, गतिविधियों और कार्यों से अवगत रहने के लिए
- स्कूल स्टाफ के साथ अपने बच्चे की शिक्षा में भागीदार के रूप में काम करने के लिए

मैं अपने बच्चे के साथ हर दिन समय बिताने का वचन देता/देती हूँ:

- साथ पढ़ने के लिए
- गृहकार्य (होमवर्क) पर काम करने के लिए
- सिर्फ सुनने और बात करने के लिए

छात्र की ज़िम्मेदारियां:

एक PCPS छात्र के रूप में, मैं कक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और स्कूल तथा गृहकार्य दोनों तरह के असाइमेंट को पूरा करने का वचन देता/देती हूँ। मैं दूसरों के प्रति सम्मान का भाव और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखूंगा/रखूंगी। मैं खुद के आचरण को स्कूल के नियमों और नीतियों के अनुरूप रखूंगा/रखूंगी।

- *अपने माता-पिता, या मेरे कल्याण के लिए ज़िम्मेदार वयस्क व्यक्ति को मेरे स्कूल से प्राप्त सभी नोटिस और जानकारी दूंगा/दूंगी।*
- *मैं सीखने के लिए तैयार और सीखने के लिए आवश्यक सभी साधनों से लैस होकर स्कूल में आऊंगा/आऊंगी।*

संशोधित 25 सितंबर, 2018

अभिभावकों के लिए नोट: हमारा कॉम्पैक्ट हर साल संशोधित किया जाएगा और हम इसके लिए आपका इनपुट चाहेंगे। कॉम्पैक्ट और अन्य स्कूली नीतियों पर चर्चा हेतु अगले स्कूल वर्ष के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी। समय और तारीख की घोषणा की जाएगी। साथ ही, हमारे कॉम्पैक्ट से संबंधित लिखित सुझाव या ईमेल सुझावों को mcgurll@pike.k12.ga.us पर भेजने के लिए आपका स्वागत है। आपको धन्यवाद।